



**विषय – हिंदी**

**कक्षा— सातवीं**

**संज्ञा**

**निर्देश :-**

- १) विषय को समझने के लिए दिए गए लिंक को देखें ।
- २) कॉपी में केवल अभ्यास प्रश्न एक से तीन तक करने हैं ।
- ३) कॉपी की जाँच स्कूल खुलने के बाद की जाएगी।

<https://www.youtube.com/watch?v=rznm0yPv6FQ>

(लिंक में संज्ञा के तीन भेदों के अतिरिक्त दो अन्य भेद बताए गए हैं जिन्हें हम जातिवाचक संज्ञा में ही लेते हैं)

प्यारे बच्चों ,

लिंक से आपने जाना कि-

**संज्ञा** उस विकारी शब्द को कहते हैं, जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं।

**दूसरे शब्दों में-** किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं।

**जैसे- प्राणियों के नाम-** मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि।

**वस्तुओं के नाम-** अनार, रेडियो, किताब, सन्दूक, आदि।

स्थानों के नाम- कुतुबमीनार, नगर, भारत, मेरठ आदि

भावों के नाम- वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि

संज्ञा के भेद:-

संज्ञा के तीन भेद होते हैं-

(1)व्यक्तिवाचक (Proper noun )

(2)जातिवाचक (Common noun)

(3)भाववाचक (Abstract noun)

(1)व्यक्तिवाचक संज्ञा:- जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे-  
व्यक्ति का नाम-रवीना, सोनिया गाँधी, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन आदि।

वस्तु का नाम- टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण आदि।

स्थान का नाम-ताजमहल, कुतुबमीनार, जयपुर आदि।

देशों के नाम- भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा।

(2) जातिवाचक संज्ञा :- जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।

जैसे- बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, लड़का, पशु-पक्षी, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि।

जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद भी होते हैं :-

(I) समूहवाचक (Collective noun)

जैसे- भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना आदि।

(ii) द्रव्यवाचक (Material noun)

जैसे- कोयला, पानी, तेल, घी आदि।

**(3) भाववाचक संज्ञा :-** जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं।

थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आजादी, हँसी, चढ़ाई, साहस, उत्साह, ईमानदारी, बचपन, वीरता आदि शब्द-भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं। इसलिए ये 'भाववाचक संज्ञाएँ' हैं।

**अभ्यास –**

**प्रश्न १)** निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द छाँटकर भेद बताइए ।

क) कश्मीर की सुंदरता देखते ही बनती है

ख) सचिन एक अच्छा खिलाड़ी है ।

ग) बच्चों ने दौड़ में भाग लिया ।

घ) घोड़े जंगल में घूम रहे हैं ।

ङ) हमें देश की एकता को बनाए रखना चाहिए ।

च) रोहन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है ।

छ) हमारा भारत महान है ।

ज) मुझे बहुत भूख लगी है ।

**प्रश्न २)** रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा से कीजिए ।

क)..... व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है ।( आलसी )

ख ) उसे हर काम में ..... मिल रही है ।( सफल )

ग) वहाँ उसकी ..... बिलकुल नहीं चल पाती । ( चतुर )

घ ) मोहन ..... से दुखी है ।( बीमार )

इ) उसने यह साहसिक कार्य करके .....का परिचय दिया।( बहादुर )

**प्रश्न ३)** निम्नलिखित शब्दों को भेद के अनुसार अलग- अलग करके लिखिए ।

अध्यापक , आगरा, शिमला , ऊँचाई रामायण , क्रोध , दिल्ली ,  
सहायता , जानवर , सौरभ , बुढ़ापा , पुस्तक

व्यक्तिवाचक –

जातिवाचक -

भाववाचक –

(पाठ को दोहराने के लिए ऊपर दिए गए लिंक को दोबारा देखें)